

## कार्रवाई / अवैध बीड़ी फैक्ट्री पर छापा, मकान मालिक समेत चार को गिरफ्तार किया, हजारों का माल बरामद



May 13, 2020, 05:00 AM IST

**अजमेर.** सिटी थाना पुलिस ने शहर के जटिया कॉलोनी क्षेत्र स्थित आवासीय मकान में अवैध रूप से संचलित बीड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मकान मालिक समेत चार लाेगाेें को धर लिया। मौके पर हजारों का तैयार माल समेत गुजरात की अशोक बीड़ी के रैपर भी मिले जिन्हें भी जब्त कर लिया गया। पुलिस अब जांच कर रही है कि आरोपियों के पास उक्त कंपनी का लाइसेंस है या कंपनी के नाम पर नकली माल तैयार किया जा रहा था। पुलिस कार्रवाई के दौरान आसपास में लोग जमा हो गए जिन्हें पुलिस द्वारा समझाइश कर लॉकडाउन की पालना के लिए निर्देशित कर घरों में भेज दिया गया। सिटी थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा के नेतृत्व में कार्रवाई करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल मनीराम, महेंद्र सिंह, गोपाललाल, पन्नाराम आदि शामिल थे।

सिटी थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह ने बताया कि कोराेना वायरस संक्रमण को रोकने के मकसद से जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी के निर्देशन में लगातार गश्त की जा रही है।

इसी दौरान मंगलवार सुबह हेडकांस्टेबल गोपाललाल को मुखबिर से इतला मिली कि जटिया कॉलोनी स्थित एक मकान में अवैध रूप से बीड़ी का कारखाना संचलित किया जा रहा है। मुखबिर ने यह भी बताया कि मकान के प्रथम तल पर कारखाना संचलित किया जा रहा है। जिस पर पुलिस टीम ने मकान पर दबिश दी। मकान पर दबिश देने पर मुखबिर की इतला सही पाई गई और पहली मंजिल पर कुछ लोग बीड़ी की पैकिंग कर रहे थे। जिस पर पुलिस ने उन्हें पकड़ कर बीड़ी बनाने और पैकिंग करने संबंधित लाइसेंस और दस्तावेज मांगे जो कारखाना संचलित करने वाला पेश नहीं कर सका।

जिस पर पुलिस ने कारखाना संचालक जय खत्री और वहां कार्य करने वाले नौरतमल और परमेश के साथ ही मकान मालिक सीताराम अग्रवाल को धर लिया। पुलिस ने मौके से करीब 70 हजार रुपए का तैयार माल जब्त किया है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/ajmer/news/raid-on-illegal-bidi-factory-four-arrested-including-landlord-thousands-of-goods-recovered-127294812.html>